



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022025-260845
CG-DL-E-08022025-260845

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 651]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2025/माघ 18, 1946

No. 651]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2025/MAGHA 18, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2025

का.आ. 655(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4432 तारीख 10/10/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में NH31 के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 27.50 (बरही से कोडरमा सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " दिनांक 19.10.2024 " को "खबर मंत्रा" और "टाईमस आफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

झारखंड राज्य के हज़ारीबाग़ जिले में NH31 के कि.मी. 0.00 से कि.मी.27.50 (बरही से कोडरमा सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: झारखंड			जिले का नाम: हज़ारीबाग़		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बरही					
गांव का नाम: उजैना					
1	1154	निजी (निजी)	धान	0.0080939	निर्मला देवी पती शंकरलाल बरनावल वो ओमप्रकाश पिता स्वर्गीय तुला प्रसाद वो जमुना देवी पती स्वर्गीय सतदेव प्रेम
2	1197	निजी (निजी)	धान	0.0040469	तापेश्वर साहू पिता स्वर्गीय नारो साव तेजो तेली दमाड़ी तेली छकौड़ी तेली
गांव का नाम: बरही (सिटी)					
3	8993	निजी (निजी)	मकान/सहन	0.0080939	गणेश साव, सुरेश साव पिता स्वर्गिये चौहान साव
4	9031	निजी (निजी)	टांड	0.0121408	अशोक केशरी पिता स्वर्गीय नारायण केशरी रामचंद्र साहू नन्हू साहू दुर्गा साहू पिता महावीर साहू
Total				0.0323755	

[फा. सं. NHAI/PD/PIU/HZB/LA/BARHI-KODERMA/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2025

S.O. 655(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4432 Dated:10/10/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH31 in the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 27.50 (Barhi-Koderma section) in the district of HAZARIBAGH in the state of JHARKHAND

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Khabar Mantra*” and “*Times Of India*” both dated **19.10.2024**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH31 in the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 27.50 (Barhi-Koderma section) in the district of HAZARIBAGH in the state of JHARKHAND.

State: JHARKHAND			District: HAZARIBAGH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Barhi					
Village: Ujaina					
1	1154	Private	Dhan	0.0080939	Nirmala Devi Pati Shankarlal Barnawal wo Omprakash Pita Swargiy Tulaa Prasad wo Jamuna Devi Pati Swargiy Satdev Prem
2	1197	Private	Dhan	0.0040469	Taapeshwar Sahu Pita Swargiy Naro Saw Tejo Teli Damadi Teli Chhakoudi Teli
Village: Barhi (CT)					
3	8993	Private	Makaan/Sahan	0.0080939	Ganesh Saw, Suresh Saw Pita Swargiye Chouhan Saw

4	9031	Private	Tand	0.0121408	Ashok Keshri Pita Swargiy Narayan Keshri Ramchandra sahu Nanhu Sahu Durga Sahu Pita Mahaveer Sahu
Total				0.0323755	

[F. No. NHAI/PD/PIU/HZB/LA/BARHI-KODERMA/3D]

ABHAY JAIN, Director